

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री...बिनाला उमार... सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल...जलजरूर... को निर्गत किया जाता है।

[Signature]
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मध्यवनी
०१०६१२२

Sch. XLV - Form No. 134

TO _____ DIVISION
FROM _____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2753

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on A/c Bill.

1

Name of Work-
Situation of Work-
Agency by which work is executed-
Date of Measurement-
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
None up work.	→ Output				Performance
Basis measurement of Road	→ C				
W.C.R Ramnath to Keertnath					
Under MR-3054.					
Agency → M/S Rekesh Ros. Chaudhary					
Agreement No. 5.M.B.D 1/2022-23					
Date of commencement → 01-09-22					
Date of completion → 31-05-23.					

Record measurement - 15.10.22

Item No-① Cleaning / scrubbing

of vegetation with soil - E.I

$$2 \times 8 \times 30 \times 1.10 = 528 \text{ m}^2$$

$$2 \times 7 \times 30 \times 1.15 = 483 \text{ "}$$

$$2 \times 5 \times 30 \times 1.10 = 330 \text{ "}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 1.10 = 660 \text{ "}$$

$$2 \times 4 \times 30 \times 1.10 = 264 \text{ "}$$

$$2 \times 5 \times 30 \times 1.20 = 360 \text{ "}$$

$$2 \times 3 \times 30 \times 1.10 = 198 \text{ "}$$

$$2 \times 2 \times 30 \times 1.15 = 138 \text{ "}$$

$$2 \times 1 \times 10 \times 1.15 = 23 \text{ "}$$

$$\text{Total} = 3182 \text{ m}^2$$

$$\text{Bdg} = 0.31 \frac{\text{Ganthum}}{10000} \text{ Hectare} = 0.32 \text{ Hectare}$$

$$\text{Total} = 0.32 \text{ Hectare}$$

12
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no (2) :- Boundary					
Plane	-		of E12		
	1.00 X	14 m08	→	14 m08	
				Total =	14 m08
item no (3) :- planting of					
tree	-		of E12		
	0.92 X 100	=	92 m08		
				Total =	92 m08
				(Q)	04/01/23
					Job
(Revised measurement) 05.01.23					
item no (1) :- providing and laying 300mm media across the road -	— of E12				
	3 X 2.50m	→	7.50m		
item no (6) :- Brick masonry work in cement (1:3) -	— of E12				
	2 X 7 X 5.80 X 0.40 X 0.60	5.56 m ³			
				Total =	5.56 m ³
item no (2) :- plastered with cement mortar (1:4) -	— of E10				
	side → 2 X 4.0 X 5.80 X 0.60	= 27.84 m ²			
	2 X 2 X 5.80 X 0.70	= 9.28 m ²			
2 X 4 X Continuation 0.40 X 0.60 = 1.92 m ²					
				Total =	39.04 m ²

Shape = Rectangular

Area = 13 m² per side

13

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(Reroof measurement dt)					
item no (1) - quantity 4000					
Coats New concrete, - dt 15					
side $\rightarrow 2 \times 4.00 \times 5.80 \times 0.60 = 27.84 \text{ m}^2$					
top $\rightarrow 2 \times 2 \times 5.80 \times 0.40 = 9.28 \text{ m}^2$					
front face $\rightarrow 2 \times 4.00 \times 0.40 \times 0.60 = 1.92 \text{ m}^2$					
					Total = 39.04 m ²
applicable					
Quesap					05/01/23
J.E					

Continuation

1/1/2023